

एनएल फॉर्म-23- शोधन-क्षमता मार्जिन (फॉर्म आईआरडीआई-जीआई-टीए)

स्वीकार्य संपत्तियों का विवरण:

30 सितंबर 2021 तक

बीमाकर्ता का नाम	ईसीजीसी लिमिटेड
पंजीकरण संख्या	124
पंजीकरण की तारीख	27 सितंबर 2002
वर्गीकरण	भारत में कारोबार/कुल कारोबार

मद संख्या	विवरण	पॉलिसीधारक खाता	शेयरधारक खाता	कुल (लाख रु में)
	निवेश			
	तुलन पत्र के एन एल -12 के अनुसार शेयरधारक	-	6038,73.60	6038,73.60
	तुलन पत्र के एन एल -12 के अनुसार पॉलिसीधारक	7380,67.73	-	7380,67.73
(क)	तुलन पत्र के अनुसार कुल निवेश	7380,67.73	6038,73.60	13419,41.33
(ख)	विनियम की अनुसूची I के खंड (1) के अनुसार अस्वीकार्य निवेश परिसंपत्तियां	-	243,86.10	243,86.10
(ग)	तुलन पत्र के अनुसार अचल संपत्तियां	172,50.31	141,13.90	313,64.21
(घ)	नियमन की अनुसूची I के खंड (1) के अनुसार अस्वीकार्य अचल संपत्तियां	1,31.97	1,07.97	2,39.94
	चालू संपत्तियाँ			
(इ)	तुलन पत्र के अनुसार नकद और बैंक बैलेंस	908,13.04	743,01.58	1651,14.62
(च)	तुलन पत्र के अनुसार अग्रिम और अन्य संपत्तियां	604,51.83	494,60.59	1099,12.42
(छ)	तुलन पत्र के अनुसार कुल वर्तमान संपत्ति (इ +च)	1512,64.87	1237,62.17	2750,27.04
(ज)	विनियम की अनुसूची I के खंड (1) के अनुसार अस्वीकार्य वर्तमान संपत्ति	189,36.37	154,93.39	344,29.76
(झ)	तुलन पत्र के अनुसार ऋण	-	-	-
(ञ)	उचित मूल्य परिवर्तन खाता न्यूनतम शून्य के अधीन	457,53.75	374,34.88	831,88.63
(ट)	तुलन पत्र के अनुसार कुल परिसंपत्ति (वर्तमान देनदारियां और प्रावधान को हटाकर)....(क)+(ग)+(छ)+(झ)	9065,82.91	7417,49.67	16483,32.58
(ठ)	कुल अस्वीकार्य संपत्ति.....(ख)+(घ)+(ज)+(ञ)	648,22.09	774,22.34	1422,44.43
(ड)	सॉल्वेंसी के लिए कुल स्वीकार्य संपत्ति (वर्तमान देनदारियों और प्रावधान को छोड़कर)..... (ट)-(ठ)	8417,60.82	6643,27.33	15060,88.15

मद संख्या	अस्वीकार्य निवेश परिसंपत्तियां (मदवार विवरण)	पॉलिसीधारक खाता	शेयरधारक खाता	कुल
	विनियम की अनुसूची I के खंड (1) के अनुसार अस्वीकार्य निवेश परिसंपत्तियां			
	अस्वीकार्य अचल संपत्ति	-	243,86.10	243,86.10
	(क) फर्नीचर एवं फिक्सचर	1,31.97	1,07.97	2,39.94
	अस्वीकार्य चालू संपत्ति			
	(क) अफ्रीकन ट्रेड इन्श्योरेंस निवेश (सॉल्वेंसी से परे)	46,65.19	38,16.98	84,82.17
	(ख) स्टाफ ऋण	14,10.28	11,53.87	25,64.15
	(ग) भारतीय पुनर्बीमाकर्ता और विदेशी पुनर्बीमाकर्ता (भारत शाखा) के मामले में 365 दिनों से अधिक के लिए बकाया पुनर्बीमा	98,87.69	80,89.90	179,77.59
	(घ) विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के मामले में 180 दिनों से अधिक के लिए बकाया पुनर्बीमा देय जिसकी भारत में शाखा नहीं है (अन्य पुनर्बीमाकर्ता)	4,89.48	4,00.49	8,89.97
	(इ) वसुलीयोग्य राशि	9,48.16	7,75.77	17,23.93
	(च) विविध जमा-कानूनी	14,28.92	11,69.12	25,98.04
	(छ) पॉलिसीधारक की संपत्ति के लिए दावा न की गई राशि	1,06.65	87.26	1,93.91

अपलोड करने की तारीख : 26/11/2021

संस्करण:1.1

<https://www.ecgc.in>